

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 28, 2019/फाल्गुन 9, 1940	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 740
No. 36]	DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2019/ PHALGUNA 9, 1940	[N.C.T.D. No. 740

भाग—IV  
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा  
अधिसूचना

2019 का विधेयक संख्या. 01

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2019

दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

वर्ष 2018-2019 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।

सं. 21(44)/विनि.1/2019/वि.स.स.-VI/वि./1809.—भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त शीर्षक.—1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2019 है।

₹1738,99,82,000/- का वर्ष 2018-2019 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त.—2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए सत्रह सौ अड़तीस करोड़ निर्यानवे लाख बयासी हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2018-2019 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन.—3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

**अनुसूची**  
(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(रुँ हजारों में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	100	100	200
		पूँजी	0	0	0
5	गृह	राजस्व	100	0	100
		पूँजी	25100	0	25100
6	शिक्षा	राजस्व	1100	0	1100
		पूँजी	100	0	100
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	1086300	2450	1088750
		पूँजी	0	0	0
8	समाज कल्याण	राजस्व	991000	0	991000
		पूँजी	100	0	100
9	उद्योग	राजस्व	32	0	32
		पूँजी	0	0	0
10	विकास	राजस्व	500	0	500
		पूँजी	100	0	100
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	1882700	0	1882700
		पूँजी	100	0	100
15	सार्वजनिक ऋण	राजस्व	0	0	0
		पूँजी	0	13400100	13400100
	योग		3987332	13402650	17389982

**विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन**

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2019 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

**उद्देश्यों और कारणों का विवरण**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 (1) (क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धनराशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2019, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

सी. वेलमुरुगन, सचिव

दिल्ली

22, फरवरी, 2019

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY****NOTIFICATION****BILL No. 01/2019****THE DELHI APPROPRIATION (No.1) BILL, 2019**

Delhi, the 26th February, 2019

A BILL to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2018-2019.

**No. 21(44)/Appren. 1/2019/LAS-VI/Leg./1809.**—Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:—

**Short title.**—1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act, 2019.

**Issue of ₹1738,99,82,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2018-2019.**— 2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees Seventeen Hundred Thirty Eight Crore Ninety Nine Lakh Eighty Two Thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2018-2019 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

**Appropriation.**— 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

**THE SCHEDULE**

(See sections 2 and 3)

(` in thousands)

**SUMS NOT EXCEEDING**

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
3	Administration of Justice	Revenue	100	100	200
		Capital	0	0	0
5	Home	Revenue	100	0	100

		Capital	25100	0	25100
6	Education	Revenue	1100	0	1100
		Capital	100	0	100
7	Medical and Public Health	Revenue	1086300	2450	1088750
		Capital	0	0	0
8	Social Welfare	Revenue	991000	0	991000
		Capital	100	0	100
9	Industries	Revenue	32	0	32
		Capital	0	0	0
10	Development	Revenue	500	0	500
		Capital	100	0	100
11	Urban Development and Public Works	Revenue	1882700	0	1882700
		Capital	100	0	100
15	Public Debt	Revenue	0	0	0
		Capital	0	13400100	13400100
	<b>Total</b>		<b>3987332</b>	<b>13402650</b>	<b>17389982</b>

#### MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No.1) Bill, 2019 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No.1) Bill, 2019 is introduced in pursuance of sub-section (I) of section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2018-2019.

C. VELMURUGAN, Secy.

Delhi  
22, February, 2019